



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 1983/वैशाख 12, 1905

No. 165]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 1983/VAISAKHA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

[वित्त मंत्रालय]

[राजस्व विभाग]

आदेश

[नई दिल्ली, 2 मई, 1983]

सा० का० नि० 372 (अ):—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 238, तारीख 1 फरवरी, 1968 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. उक्त आदेश के पैरा 1 में,—

(i) उप-पैरा (1) के खंड (ख) में, “उड़ीसा” शब्द के पश्चात् “सिक्किम” शब्द अन्तः स्थापित किया जाएगा :

(ii) उक्त आदेश के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् —

2. (क) प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

(i) सचिव जो तत्समय विक्रय-कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क का भारसाधक है, या जहां विभिन्न सचिव

विक्रय-कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क भारसाधक है वहां संबंध प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवा प्रत्येक सचिव;

(ii) विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क का आयुक्त या के आयुक्त या जहां विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क के लिए विभिन्न आयुक्त हैं वहां ऐसा प्रत्येक आयुक्त या जहां ऐसा/ऐसे कोई आयुक्त नहीं है/हैं, वहां संबंध प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विक्रय कर और उत्पाद शुल्क विभाग या विभागों का/के प्रधान,

(iii) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में विक्रय कर का भारसाधक अवसर सचिव ;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य और अपर सचिव, पदेन वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग जो तत्समय औषधीय और प्रसाधन निमित्तियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 का भारसाधक है ;

(v) संयुक्त सचिव (योजना वित्त) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ; परन्तु संयुक्त सचिव (योजना वित्त) जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे, निदेशक

(योजना विस्त), वित्त मंत्रालय, वय्य विभाग को अपनी ओर से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ;

(vi) सलाहकार, (वित्तीय स्रोत) योजना आयोग या उसका प्रतिनिधि ;

(vii) अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका प्रतिनिधि ;

(viii) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग का एक अधिकारी जो अपर विधायी परामर्शी की पंक्ति से नीचे पंक्ति का न हो ;

(ix) संयुक्त सचिव/अपर विधि सलाहकार विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ।

(ख) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का उप-सचिव जो दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का तत्समय भारसाधक है, खंड (क) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होगा ;

(ग) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का, यथास्थिति, निदेशक या उप सचिव, जो विक्रय कर का तत्समय भारसाधक है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(3) उप-पैरा (3) (क) में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का यथास्थिति, निदेशक या उप सचिव, जो विक्रय कर का तत्समय भारसाधक है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा और शब्दों के स्थान पर “सदस्य सचिव” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० 22/13/79-एस०टी०]

भगवान दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1983

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by Article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), G.S.R. No. 238 dated the 1st February, 1968, namely :—

1. In paragraph 1 of the said Order :—

(i) In sub-paragraph (1) in clause (b), after the word “Orissa”, the word, “Sikkim” shall be inserted ;

(ii) For sub-paragraph (2) of the said Order, the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

(2)(a) The Regional Council for each zone shall consist of —

(i) the Secretary for the time being in charge of Sales Tax and State Excise Duties, or where different Secretaries are in charge of sales-tax and State Excise Duties, each of these Secretaries in each of the States or Union territories concerned;

(ii) the Commissioner or Commissioners of sales tax and State excise duties, or where there are different Commissioners for sales tax and State excise duties, each of these Commissioners or where there is no such Commissioner or Commissioners, the head or heads of the sales tax and excise department or departments, each of the States or Union territories concerned;

(iii) Additional Secretary in charge of sales tax in the Ministry of Finance, Department of Revenue;

(iv) Member, Central Board of Excise and Customs and ex-officio Additional Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue, who is for the time being in charge of Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955;

(v) Joint Secretary (Plan Finance) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure ;

Provided that the Joint Secretary (Plan Finance) may, when he considers it necessary so to do, authorise the Director (Plan Finance) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure to act on his behalf as member ;

(vi) the Adviser (Financial Resources), Planning Commission or his representative;

(vii) Additional Secretary, Ministry of Commerce, Department of Commerce or his representative;

(viii) an officer of the Legislative Department of Ministry of Law, Justice and Company Affairs of a rank not below that of an Additional Legislative Counsel;

(ix) Joint Secretary/Additional Legal Adviser, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs.

(b) the Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs who is for the time being in charge of the Union territory of Delhi, shall, in addition to the members referred to in clause (a), be a member of the Regional Council for the Northern Zone;

(c) the Director or as the case may be Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance, who is, for the time being, in charge of sales tax, shall function as the Member-Secretary of every Regional Council;

(iii) In sub-paragraph (3)(a), for the words, “The Director or as the case may be Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance, who is for the time being, in charge of sales tax, shall function as the Secretary of every Regional Council and”, the words, “Member Secretary shall” shall be substituted.

[F. No. 22/13/79-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.